



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1669]

No. 1669]

नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 27, 2008/अग्रहायण 6, 1930

NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 27, 2008/AGRAHAYANA 6, 1930

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 नवम्बर, 2008

का.आ. 2746(अ).—यतः यूनाइटेड लिब्रेशन फ्रंट ऑफ असम और उसके अनेक गुट (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् उल्फा कहा गया है) का घोषित उद्देश्य पूर्वोत्तर क्षेत्र के अन्य सशस्त्र पृथक्तावादी संगठनों से मिलकर, सशस्त्र संघर्ष द्वारा असम को भारत संघ से 'मुक्त कराना' है;

और यतः केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि उल्फा -

- (i) असम को मुक्त करने के अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, भारत की संप्रभुता और भू-भागीय अखंडता को विच्छिन्न करने के लिए आशयित अनेक अवैध और हिंसात्मक क्रियाकलापों में लिप्त है;
- (ii) असम को भारत से पृथक् करने के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र के अन्य विधि विरुद्ध संगमों के साथ संबद्ध रहा है;
- (iii) इसकी विधि विरुद्ध संगम के रूप में घोषणा किए जाने के दौरान भी यह अपने ध्येयों और उद्देश्यों के अनुसरण में अनेक विधि विरुद्ध एवं हिंसक क्रियाकलापों में संलिप्त रहा है;

और यतः केन्द्रीय सरकार की यह भी राय है कि इसके विधिविरुद्ध और हिंसक क्रियाकलापों में निम्नलिखित सम्मिलित हैं -

- (i) 01 जनवरी, 2006 से 15 अक्टूबर, 2008 तक की अवधि के दौरान की गई 560 हिंसक घटनाएं, जो उल्फा द्वारा की गई;
- (ii) 01 जनवरी, 2006 से 15 अक्टूबर, 2008 तक की अवधि के दौरान उल्फा ने 29 सुरक्षा बल कार्मिकों सहित 346 व्यक्तियों की हत्याएं की है;
- (iii) फिरौती के लिए अपहरण की अपनी कार्रवाइयों के अलावा धन ऐंठने और अलगाववादी गतिविधियों तथा निर्दोष नागरिकों के जीवन को खतरे में डालने के क्रियाकलापों में इसकी संलिप्तता;
- (iv) पड़ोसी देशों में शरण स्थल और प्रशिक्षण शिविर स्थापित करना;

और यतः, केन्द्रीय सरकार की यह भी राय है कि ऊपर उल्लिखित कारणों से, उल्फा के क्रियाकलाप भारत की संप्रभुता और अखण्डता के लिए हानिकर हैं और यह कि एक विधिविरुद्ध संगम है;

और यतः, यदि उल्फा के विधिविरुद्ध क्रियाकलापों को तत्काल रोक और नियंत्रित नहीं किया गया तो इसे निम्नलिखित कार्य करने का अवसर प्राप्त हो सकता है -

- (i) अपने काइरों को अपने पृथकतावादी, विध्वंसक और हिंसक क्रियाकलापों के लिए लामबंद करना;
- (ii) भारत की संप्रभुता और राष्ट्रीय अखंडता की विरोधी ताकतों के सहयोग से, राष्ट्र विरोधी क्रियाकलापों का खुले आम प्रसार करना;
- (iii) नागरिकों की अधिकाधिक हत्या करना और पुलिस एवं सुरक्षा बल कार्मिकों को निशाना बनाने में संलिप्त रहना;
- (iv) सीमा पार से और अधिक अवैध शस्त्र एवं गोलाबारूद प्राप्त करना और लाना;
- (v) अपने विधिविरुद्ध क्रियाकलापों के लिए जनता से प्रचुर मात्रा में धन और अवैध कर ऐंठना एवं संग्रह करना;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (1967 का 37) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम (उल्फा) के साथ इसके सभी गुटों, विंगों एवं मुख्य संगठनों को विधिविरुद्ध संगम घोषित करती है;

केन्द्रीय सरकार की यह भी दृढ़ राय है कि उल्फा के उल्लिखित क्रियाकलापों को ध्यान में रखते हुए और हाल ही में पुलिस, सशस्त्र बलों और नागरिकों के विरुद्ध उल्फा की सतत बढ़ती हिंसा का मुकाबला करने के लिए उल्फा को तात्कालिक प्रभाव से विधिविरुद्ध संगम घोषित किया जाना आवश्यक है और तदनुसार, केन्द्रीय सरकार, धारा 3 की उप धारा (3) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निदेश देती है कि यह अधिसूचना, उक्त अधिनियम की धारा 4 के अधीन किए जा सकने वाले किसी आदेश के अध्वधीन रहते हुए, सरकारी राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगी।

[फा. सं. 11011/55/2008-एनई-III]

नवीन वर्मा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th November, 2008

S.O. 2746(E)—WHEREAS, the United Liberation Front of Asom and the various wings thereof, (hereinafter referred to as the ULFA) has as its professed aim, the “Liberation” of Assam from the Indian Union through an armed struggle in alliance with other armed secessionist organizations of the North East Region;

AND WHEREAS, the Central Government is of the opinion that ULFA has-

- (i) indulged in various illegal and violent activities intended to disrupt the sovereignty and territorial integrity of India in furtherance of its objective of liberating Assam;
- (ii) aligned itself with other unlawful associations of North Eastern Region to secede Assam from India;
- (iii) in pursuance of its aims and objectives, engaged in several unlawful and violent activities during the currency of its declaration as an unlawful association;

AND WHEREAS, the Central Government is further of the opinion that the unlawful and violent activities include-

- (i) 560 violent incidents, which are attributed to ULFA during the period from 1st January, 2006 to 15th October, 2008;
- (ii) killing of 346 persons including 29 members of security forces which are attributed to ULFA during the period 1st January, 2006 to 15th Oct' 2008;
- (iii) indulging in a spate of extortion and secessionist activities, and endangering lives of innocent citizens, in addition to its acts of kidnapping for ransom;
- (iv) establishing sanctuaries and training camps in neighbouring countries;

AND WHEREAS, if the Central Government is also of the opinion that for the reasons mentioned above, the activities of ULFA are detrimental to the sovereignty and integrity of India and it is an unlawful association;

AND WHEREAS, if there is no immediate curb and control of unlawful activities of the ULFA, it may take the opportunity to-

- (i) mobilize its cadres for escalating its secessionist, subversive and violent activities;
- (ii) openly propagate anti-national activities in collusion with forces inimical to India's sovereignty and national integrity;
- (iii) indulge in increased killings of civilians and targeting of police and security forces personnel;

- (iv) procure and induct more illegal arms and ammunitions from across the border;
- (v) extort and collect huge funds and illegal taxes from the public for its unlawful activities;

NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (37 of 1967), the Central Government hereby declares the United Liberation Front of Asom (ULFA) alongwith all its factions, wings and front organizations as unlawful associations;

The Central Government is further of the opinion that having regard to the activities of ULFA mentioned above and to meet the sustained and ever increasing violence committed by ULFA in the recent past against the police, the armed forces and the civilians, it is necessary to declare ULFA an unlawful association with immediate effect and accordingly, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-section (3) of section 3, the Central Government directs that the notification shall, subject to any order that may be made under section 4 of the said Act, have effect from the date of its publication in the Official Gazette.

[F.No. 11011/55/2008-NE-III]

NAVEEN VERMA, Jt. Secy.

4681 GI/08-2.